GSTIN : 03 AAHCM 9649 M 1 ZV

FSSAI:12118721000032

CIN No.: L 15311 CH 2011 PLC 033393

#### FGASTAR FOODS LTD.

Registered Office: Plot No. 807 Industrial Area Phase-2, Chandigarh-160 002 Works: Kurali-Ropar Road, Village Solkhian-140 108, Distt. Roopnagar, Punjab Ph.: +91 1881 240401 (6 Lines) E-mail: info@megastarfoods.com



Dated: 09-11-2023

The General Manager Department of Corporate Services **BSE** Limited Floor 25, Phiroze jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai -400 001

Scrip code: 541352

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", C-1, Block-G Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051

Symbol: MEGASTAR

Series: Eq.

#### Subject: Newspaper Publication of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended on 30th September 2023.

#### Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the Publication of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September 2023 in Financial Express (English), and Jansatta (Hindi) on 9th November 2023. A copy of the results published is attached herewith.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Megastar Foods Limited

Digitally signed SAPNA by SAPINA Date: 2023.11.09 by SAPNA 11:39:33 +05'30'

Sapna Company Secretary & Compliance Officer A-60232











36

(Rs. In Lakh)

# **GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED**

Registered Office: Pipavav Port, At Post Rampara-2, Tal. Rajula, Dist. Amreli, Gujarat 365560.

CIN: L63010GJ1992PLC018106 Tel: 02794 242400 Fax: 02794 242413 Website: www.pipavav.com Email: investorrelationinppv@apmterminals.com

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPT 30, 2023 (Amt in Rs Million)

Particulars	STANDALONE									
	3 months	Preceding	Corresponding 3	Year to date	Year to date figure	Year				
	ended	3 months ended	months ended in the previous year	figure for current period ended on	for previous period ended on	ended				
	30-09-2023	30-06-2023	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2022	31-03-2023				
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)				
Total Income from Operations (net)	2,526.06	2,149.18	2,264.12	4,675.24	4,329.64	9,169.50				
Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after Tax										
(after extra ordinary items)	1,071.32	659.12	707.13	1,730.44	1,282.38	2,924.50				
Paid-up equity share capital (Face value Rs 10 per share)	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40				
Other Equity as per the balance sheet of previous			3							
accounting year						15,948.75				
Earnings per share (before and after extra ordinary items)										
(of Rs. 10/- each) (not annualised)										
Basic:	2.23	1.36	1.47	3.59	2.66	6.04				
Diluted:	2.23	1.36	1.47	3.59	2.66	6.04				

-\$\^\\=M\=N\-\O\=\\O\N\\$\0\\\D\X\\=D\=\N\A\\\O\			MDISD SEPT 30	2023

Particulars		CONSOLIDATED									
	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	figure for current	Year to date figure for previous period sended on	Year ended					
	30-09-2023	30-06-2023	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2022	31-03-2023					
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)					
Total Income from Operations (net)	2,526.06	2,149.18	2,264.12	4,675.24	4,329.64	9,169.50					
Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after Tax											
(after extra ordinary items)	917.33	678.26	719.83	1,595.59	1,313.22	3,138.15					
Paid-up equity share capital (Face value Rs 10 per share)	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40					
Other Equity as per the balance sheet of previous											
accounting year of previous accounting year	J.,	,				18,273.07					
Earnings per share (before and after extra ordinary items)					100						
(of Rs. 10/- each) (not annualized)											
Basic:	1.91	1.40	1.49	3.31	2.72	6.48					
Diluted:	1.91	1.40	1.49	3.31	2.72	6.48					

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter end Financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter end financial results is available on the Stock Exchange websites (www.besindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website, www.pipavav.com. For Gujarat Pipavav Port Limited

(Rs. In lakhs except per share data)

Quarter

ended on

30/09/2022 30/09/2023 30/09/2023

27,047.21

11,317.91

11,317.91

32.30

1,046.16

Consolidated (Unaudited)

Half Year

ended on

47,195.43

17,819,13

17,819.13

8,101.99 13,551.42 2,196.70

24.51

1,046.16

127954.09

Quarter

ended on

30/09/2022

16,492.81

3,032.64

3,032.64

(5.06)

1,046.16

Place: Pipavav Port Date: 8th November 2023

Particulars

Total Income from Operations

period (before Tax, Exceptional

and / or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for

Comprehensive Income (after tax)]

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited

Balance Sheet of the previous year

Earnings Per Share (Face Value of Rs.1/

operations - Not Annualised)

each) (for continuing and discontinued

the period (after tax) and Other

6 | Equity Share Capital

1) Basic

2) Diluted

Net Profit / (Loss) for the

Girish Aggarwal

Managing Director



### **MEGASTAR FOODS LIMITED**

CIN: L15311CH2011PLC033393 Rea off: Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh-160 102 Works: Village Solkhian, Near Haveli Resorts, District Rupnagar, 140 108 Telephone: +91 1881 240401; Website: www.megastarfoods.com; E-mail: cs@megastarfoods.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results of Megastar Foods Limited For the Quarter and Half Year ended 30 September 2023

Sr.	Particulars		Quarter ende	ed	Half Yea	Year ended	
No		30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	6,997.00	7,155.36	6,503.89	14,152.36	12,323.55	30,440.19
2	Net Profit from ordinary activities before tax	272.69	274.28	215.92	546.97	407.22	1362.56
3	Net profit for the period after tax (PAT)	202.94	208.14	145.12	411.08	287.40	1008,20
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	206.36	200.53	149.76	406.89	297.91	1018.07
5	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per share Rs 10/-)	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37
6	Other Equity	4015.13	3808.76	2884.37	4015.13	2884.37	3608.23
7	Earnings per equity share (Face Value of Rs. 10/- each)	10	10	10	10	10	10
	Basic	2.03	2.08	1.45	4.11	2.87	10.08
	Diluted	2.03	2.08	1.45	4.11	2.87	10.08

Key numbers of Unaudited Standalone Financial Results (Rs. In Lakh) Quarter ended Half Year Ended Year ended Particulars 30-06-2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 30.09.2023 31-03-2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Unaudited) (Audited) 12,085.32 Total Income from operations 6,317.45 5,767.86 6,498.88 12,315.74 26,799.00 Profit before tax 271.39 258.99 211.32 530.38 400.56 1296.69 Profit after tax 201.96 196.66 143.94 398.62 284.16 961.71

(Amt in Rs Million)

The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website Viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website viz. www.megastarfoods.com under the head of investor,

For and on behalf of Board of Director of Megastar Foods Limited

Vikas Goel Place: Chandigarh Chairman & Managing Director Date: 08 November 2023 DIN:05122585

HEXA

**HEXA TRADEX LIMITED** CIN-L51101UP2010PLC042382

Regd. Office: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403

Corp. Office: Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Sr.		Standalone					Consolidated						
No.		Quarter Ended		Half year ended Year ende		Year ended	d Quarter Ended			Half yea	ır ended	Year ended	
		30.09.2023 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.03.2023 30.09.2023 Audited Unaudited	30.06.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	30.09.2023 Unaudited		31.03.2023 Audited	
1.	Total income from operations	0.46		2.36	0.46	2.37	4.80	384.81	9,274.05	66.00	9,658.86	782.10	106.83
2.	Net profit/(loss) before tax	(89.21)	(63.36)	(80.98)	(152.57)	(176.30)	(376.06)	186.37	8,299.14	(1,523.67)	8,485.51	(2,429.97)	(6,814.56)
3.	Net profit/(loss) after tax	(66.75)	(46.50)	(60.59)	(113.25)	(131.92)	(282.44)	155.67	6,281.21	(1,137.78)	6,436.88	(1,629.38)	(2,560.92)
4.	Total comprehensive income for the period /year [Comprising profit/(loss) for the period/year (after tax)	1690350-5016	5,000 to 200				0.118.000.00 FOR-20.		VE-300 / \$40,000		Mericology (Model		
	and other comprehensive income (after tax)]	32,685.98	24,500.29	21,901.93	57,186.27	(32,199.45)	(19,087.41)	51,646.53	36,058.42	23,813.13	87,704.95	(43,500.44)	(10,024.24)
5. 6.	Paid up Equity share capital Other equity	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91 193,625.54	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91 223,954.88
Z.	Earnings per share (of ₹ 2/- each) (*not annualized) (1) Basic (₹) (2) Diluted (₹)	(0.12)* (0.12)*	(0.08)* (0.08)*	(0.11)* (0.11)*	(0.20)* (0.20)*	(0.24)* (0.24)*	(0.51) (0.51)	0.28* 0.28*	11.37* 11.37*	(2.06)* (2.06)*	11.65* 11.65*	(2.95)* (2.95)*	(4.64) (4.64)

Place: New Delhi

Date: November 08, 2023

1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated financial results for the quarter and half year ended on 30th September 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated results for the quarter and half year ended on 30th September 2023 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com/ www.bseindia.com) and on the Company's website (www.hexatradex.com).

On behalf of Board For Hexa Tradex Limited Raj Kamal Aggarwal Chairperson DIN: 00005349

7.74 12.95 2.10 7.74 12.95 2.10 Notes: (a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the listed entity i.e. www.concordbiotech.com (b) # - Exceptional and / or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Standalone and Consolidated Financia

**CONCORD BIOTECH LIMITED** 

B/1601-1602, B Wing, Mondeal Heights, Iscon Cross Road, S.G. Highway, Ahmedabad- 380015, Gujarat

Phone No.: +91-79-68138700 || Fax: +91-79-68138725 || CIN: U24230GJ1984PLC007440

Email Id : complianceofficer@concordbiotech.com | Website : www. concordbiotech.com

Regd. Office & Plant: 1482-86, Trasad Road, Dholka, District: Ahmedabad - 382225, Gujarat, India

Phone No.: +91-2714-222604, 398200 || Fax: +91-2714-222504

STATEMENT OF STANDALONE/CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2023

Standalone (Unaudited)

Quarter

30/09/2023

27,047.21

11,317.91

11,317.91

8.449.42

32.30

8.08

8.08

1,046.16

Half Year

ended on

30/09/2023

47,195.43

17,819.13

17,819.13

13,296.45

24.51

1,046.16

128151.88

12.71

12.71

Quarter

ended on

16,492.80

3,032.64

3,032.64

2,244.45

(5.06)

2.15

2.15

1,046.16

AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For and on behalf of board of directors of Concord Biotech Limited Ankur Vaid

Place: Ahmedabad

Joint Managing Director & CEO - DIN: 01857225 Date: November 8, 2023



# EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

CIN: L65910GJ1991PLC015044

						e in iakns, uniess	otherwise stated			
	Particulars	Consolidated								
Sr.			Quarter Ended		Half Yea	Year Ended				
No.		30-09-2023	30-06-2023	30-09-2022	30-09-2023	30-09-2022	31-03-2023			
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Total Income from operations (Net)	2513.13	2165.42	2928.30	4678.55	5327.85	10181.87			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	142.06	149.10	223.26	291.16	469.74	801.03			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	142.06	149.10	223.26	291.16	469.74	801.03			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	125.09	146.57	204.41	271.66	417.83	739.10			
5	Total Comprehensive Income for the period	107.63	119.37	232.91	227.00	494.13	788.81			
6	Equity Share Capital (Face Value ₹10/- per share)	747.23	747.23	557.23	747.23	557.23	747.23			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-					2348.77			
8	Earnings Per Equity Share on net profit after tax (Fully paid- up equity share of ₹ 10/- each)									
	Basic: ₹	(1.06)	1.29	2.32	0.23	4.37	7.53			
	122 M 100 M	10 X 10 X 10 X 10 X 10 X	200		200 000	40.00	and the second			

(1.06)1.29 2.32 Diluted: ₹

0		(All amounts are in lakhs, unless otherwise stated.  Standalone								
Sr.	Particulars		Quarter Ended		Half Yea	r Ended	Year endedn on			
No.	raruculars	30-09-2023 (Unaudited)	30-06-2023 (Unaudited)	30-09-2022	30-09-2023 (Unaudited)	30-09-2022 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)			
				(Unaudited)						
1	Turnover (Total Income)	29.60	27.76	11.41	57.37	23.56	63.44			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	16.35	15.24	(0.60)	31.61	0.02	10.65			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	205.84	15.24	(0.60)	221.10	0.02	10.65			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	186.76	11.27	0.18	198.04	0.63	10.34			

(In above table, brackets denotes negative figures) The said results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Diretors of the Company at its Meeting held on 8th November, 2023.

Place : Vadodara

Date: 8th November, 2023

3. The above is an extract of the Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange. The detailed Financial Results are available on the Company's website at www.optimusfinance.in and the Stock Exchange's Website at www.bseindia.com.

For Optimus Finance Limited Deepak V Raval

0.23

4.37

7.53

# **CONTAINERWAY INTERNATIONAL LIMITED**

CIN: L60210WB1985PLC038478 Regd. Office: 6th Floor, Room No 608, Saltee Plaza Cabin No M-11, Near ILS Hospital, Kolkata, Mall Road, Kolkata, West Bengal, India, 700080 **Tel No.:** 011-26039925 | **Website:** www.containerway.co.in | **E Mail:** containerwayinternational@gmail.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of the Containerway International Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") in relation to the open offer to the public shareholders of the Target Company ("Open Offer") made by Mr. Sanket Deora (Acquirer No. 1), Mr. Sanjay Deora, (Acquirer No. 2), and Mr. Surendra Shah (PAC) for the acquisition of

Èqu	ity Shares of the Target Company.	
1	Date	November 08, 2023
2	Name of the Target Company	Containerway International Limited
3	Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer is being made by the Acquirers and PAC for the acquisition of Up To 16,99,672 (Sixteen Lakh Ninety-Nine Thousand Six Hundred Seventy-Two) fully paid-up equity shares of Rs.5.00/- each, representing 26.00% of the equity and voting share capital at a price of Rs. 6.00/- (Rupees Six Only) per equity share, payable in cash in terms of regulation 3(1) & 4 of the SEBI (SAST) Regulations,2011.
4	Name(s) of the Acquirers and PAC with the acquirer	Mr. Sanket Deora, (Acquirer No. 1), Mr. Sanjay Deora, (Acquirer No. 2), Mr. Surendra Shah, (PAC)
5	Name of the Manager to the Offer	INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED  Address: 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Manekbag, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India.  Tel No.: +079 35217439; Web Site: www.ifinservices.in; Email: mbd@ifinservices.in;  Contact Person: Ms. Jaini Jain; SEBI Reg No: INM000012856
6	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Ms. Monica Awana (Chairman), Mr. Suraj Singhal (Member) and Mr. Shashi Kumar (Member)
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the Members of the IDC hold any equity shares in the Target Company nor have any relationship with the other Directors of the Target Company and apart from being the directors of the TC they are not related to each other in any manner.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	No trading has been done by the IDC Members in the Equity Shares/ Other Securities of the Target Company since their appointment.
9	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirers and PAC.
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirers by IDC Members	Not Applicable
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that the Offer Price of Rs. 6.00/- per equity share offered by the Acquirers vide Letter of Offer dated November 02, 2023 Shareholders should independently evaluate the offer, market performance of the Equity Shares of the TC and take informed decisions.
12	Summary of reasons for recommendation	IDC has perused the Letter of Offer dated November 02, 2023, Draft Letter of Offer dated August 23, 2023, Detailed Public Statement dated August 14, 2023 and PA issued by Interactive Financial Services Limited (as Manger to the Open offer) on behalf of Acquirers and PAC on August 7, 2023, the IDC members have considered the following recommendation:
		<ul> <li>a) Offer price is justified in terms of the parameter prescribed under Regulation 8(1) &amp; 8(2) of the SEBI(SAST) Regulations, 2011.</li> </ul>
		b) Keeping in the view the above fact, the IDC members are of the opinion that the offer price of Rs. 6.00/- per equity shares payable in cash to the public shareholders of the Target company is fair and reasonable
13	Details of Independent Advisors, if any.	Nil
14	Voting Pattern (Assent/Dissent)	The recommendation were unanimously approved by the member of IDC.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations. For and on behalf of Committee of Independent Directors of Containerway International Limited

(Monica Awana)

(Wholetime Director)

Date: November 08, 2023

Place: Ahmedabad

15 Any other matter to be highlighted

Chairman of IDC New Delhi

एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड

(रू. लाखाँ में)

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(घारा 82 सीआर.पी.सी. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त राहल पुत्र दीना नाथ निवासी बापरोला. रनहोला. दिल्ली ने मकदमा प्रथम सचना रिपोर्ट संख्या 188/2021 धारा 392/394/397/34 भा.द.सं के तहत थाना निहाल विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त राहुल मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त राहुल फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 188/2021 धारा 392/394/397/34 भा.द.सं के तहत थाना निहाल विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त राहल से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 30.01.2024 को या इससे पहले हाजिर हो।

> आदेशानुसार श्री राकेश कुमार रामपुरी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) कमरा न0. 132, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

> > (Rs. in lacs)

### CORAL NEWSPRINTS LTD.

DP/12635/OD/2023

CIN NO: L22219DL1992PLC048398, E-mail: cnpl 5000@rediffmail.com Website: www.coralnewsprintslimited.com,Tel.: 22010998 Annexure XI Abstract of Unaudited Financial Result (Standalone)

for the Quarter & Year ended on 30.09.2023

Sr. | Particulars Year to date Quarter Figures 31.03.2023 30.09.2023 30.09.2022 Unaudited Audited Unaudited 1070.77 Total income from operations (net) 27.10 286.10 Net Profit / (Loss) from ordinary (45.55)activities after tax (9.59)(69.53)Net Profit / (Loss) for the period (9.59)(69.53)(45.55)after tax (after Extraordinary items) 505.27 505.27 505.27 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance (1,185.45)(1,269.61)(1,187.03)Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (0.19)(0.19)(1.38) (1.38) (0.90)Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (0.90)(0.19)Basic (1.38)(0.19)(1.38)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on Company's website at www.coralnewsprintslimited.com By Order of the Board For Coral Newsprints Ltd.

(Pushpendra P.S.Chauhan) Place : Delhi Whole Time Director & CEO, (DIN No: 01871760) Dated: 08.11.2023



TALBROS

परिचालन से कुल आय

मदें शामिल हैं}

(व) परिसमाप्तः

स्थानः फरीदाबाद

दिनांकः 08 नवंबर 2023

www.readwhere.com

अनमोदित किया गया है।

तिथि 21 नवंबर, 2023 तय की गई है।

नोटः

इक्विटी शेयर पूंजी

और/या असामान्य मदों से पूर्व)

और / या असामान्य मदों के बाद)

विवरण

अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और असाधारण

अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण

अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इसमें अवधि के लिए

(कर के बाद) व्यापक लाम/हानि और /या असामान्य

अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)

(असाधारण और / या असामान्य मदों के बाद)

आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित छोडकर)

प्रति शेयर आय (ईपीएस) (प्रति रु. 10/-)

(जारी और परिसमाप्त संचालन के लिए) –

- JOURNALISM OF COURAGE -

30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन अपरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण

टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड

सीआईएन L74210HR1986PLC033018

पंजीकृत कार्यालयः 74-75-76. सेक्टर-6. फरीदाबाद, हरियाणा 121006

तिमाही

30.09.2023

10,250.26

594.56

594.56

443.91

443.91

507.65

8.74

8.74

अ) उपरोक्त सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर त्रैमासिक समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप के विवरण हैं। त्रैमासिक समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.talbrosaxles.com) पर

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 08 नवंबर, 2023 को आयोजित बैठक में

रुपये और पचास पैसे) के अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए स्वीकृति दे दी है। अंतरिम लाभांश के भुगतान के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड

स) निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए रूपये 10 /- के प्रति अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर पर 1.50 /- रुपये (केवल एक

चाल वर्ष से

समाप्त अवंधि

30.09.2023

19,935.16

1209.07

1209.07

898.91

898.91

507.65

17.71

17.71

निवासी मकान नंबर 37, सेक्टर-55, फरीदाबाद, हरियाणा 121004

आज तक /

### दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत बिक्री सूचना एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड –परिसमापन में परिसमापक कार्यालयः 5203, डीएलएफ सिटी फेज -4, ग्डगांव, हरियाणा-122002

ई-नीलामी की तिथि और समयः 11 दिसंबर, 2023 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मैसर्स एसपीजी ग्लोबल डिस्टीब्यशन प्राइवेट लिमिटेड — परिसमापन में बी -363, 364 और 365. नेहरू ग्राउंड. एनआईटी. फरीदाबाद. हरियाणा—121001. भारत की माननीय एनसीएलटी. चंडीगढ द्वारा द्वारा दिनांक 07.08.2023 के आदेश द्वारा नियुक्त परिसमापक, **"जैसा है" "जहां है"**, "जो कुछ भी है", और "कोई सहारा आधार नहीं", की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को सूचना दी जाती है । आरक्षित मूल्य ईएमडी वृद्धिशील बोली

₩.	व्यापार/संपास का प्रकृति जाराववरण	(रू.में)	(रू.में)	राशि (रू.मे)				
Ų	एक चालित कंपनी के रूप में व नीलामी की तिथि और समयरू 10 दिसंबर 2023 व	गॅपॉरेट देनदार गे सुबह 10:00 ब	की बिक्री जे से दोपहर	01:00 बजे तक				
	एक बालित कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री (परिसमापन विनियम, 2016 के विनियमन 32 (ई) के तहत) जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं और सीमित हैं	1,86,02,400	10,00,000	1,00,000				
बी	पार्सल में परिसंपत्तियों की बिक्री (यदि क्रम संख्या ए की) नीलामी के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होती है) नीलामी की तिथि और समय: 10 दिसंबर 2023 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक							
1	प्लॉट नंबर बी 363,364,365, नेहरू ग्राउंड,	1,86,02,400	10,00,000	1,00,000				

भवन-122001 ई—नीलामी के नियम और शर्तेः

एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा में भिम और

त्यापार/संपन्ति की प्रकृति और विवस्ता

. बिक्री 'जहां है', 'जैसा है', 'जो कुछ भी है' और 'कोई सहारा आधार नहीं' पर है।

2. बिक्री ई—नीलामी प्लेटफॉर्म (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी

. संपत्ति. संपत्ति आदि का विवरण ई—नीलामी प्रक्रिया सचना दस्तावेज में प्रदान किया जाता है जिसे https://right2vote.in पर अपलोड किया जाता है और इसे ईमेल भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता liquidator.spgglobalpvt@gmail.com 4. प्रत्येक विकल्प / लॉट के लिए ईएमडी प्रस्तुत करने पर सभी दो विकल्पों में बोली लगाने की अनुमति

. यदि उपरोक्त बिंदु में विकल्प ए के तहत बोलीदाता उल्लिखित बोली से उच्चतम मूल्य प्रदान

करता है, तो विकल्प ए के तहत एव 1 बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा और विकल्प बी के तहत ई—नीलामी रद्द कर दी जाएगी। पात्रता दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 23.11.2023 योग्य बोलीदाता की घोषणा की तिथिः 28.11.2023

अंतिम निरीक्षण तक की तिथिः 05.12.2023 ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 09.12.2023 नीलामी की तारीखः परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को

रथगित / रथगित / रद्द करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। हस्ता / प्रमोद कमार मिश्रा परिसमापक – एसपीजी ग्लोबल डिस्टीब्यशन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के तहत

आई बीआई बी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P-02669/2022-2023/14099 दिनांक: 09.11.2023 एएफए 24.04.2024 तक मान्य है पंजीकृत पता : 5203 डीएलएफ सिटी, फेज -4 गुडगांव, हरियाणा -122002 स्थान: गुडगांव

> <u>प्रपत्र ए</u> सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण कार्पोरेट देनदार का नाम आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 27जून 2003 प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट रजिस्टार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली

देनदार निगमित / पंजीकृत है कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U15549DL2003PTC125516 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकत कार्यालय यनिट नं. 1081, 10वीं मंजिल, अग्रवाल मिलेनियम टावर-2, तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता अक्षमता आरंभन तिथि

उत्तरी दिल्ली, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली—110034 भारत कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध 30 अक्ट्बर, 2023 (आदेश की प्रति 06 नवंबर 2023 को प्राप्त हुई ) ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के | 27 अप्रै ल, 2024 समापन की पूर्वानुमानित तिथि अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूपमें श्री शमशेर बहादर सिंह

कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल |पंजी. सं.:IBBI/IPA-003/0341/2021-2022/13623 का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर 🤋 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और 🗚. सिद्धार्थ अपार्टमेंट, इंदर एन्क्लेव रोहतक रोड के पीछे. ई-मेल. जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है ज्वाला पुरी नंबर 5 के सामने, नई दिल्ली—110087 ईमेल:shamsher\_cs@yahoo.co.in

डी-54, प्रथम तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 े अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल ईमेल : cirp.iapl2023@gmail.com दावा प्रस्तृत करने हेतु अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2023 12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वाराधारा 21 की लागू नहीं 4 उप-धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत

अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लागू नहीं रूप में कार्य करने हेत् चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)

14. (क) संबंधित प्रपत्र और वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है

शतदहारा संबना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ–V ने दिनांक **30 अक्टूबर, 2023** आदेश की प्रति 08 नवंबर 2023 को प्राप्त हुई )को **आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटे-इ** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है । **आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटे ड** के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण **20 नवंबर 2023** को अथवा पूर्व

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समझ ऊपर आइटम 10 के समझ वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रोंनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं । दावों का प्रमाण भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रियां विनियम, 2016 के अध्याय IV के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों का प्रमाण उनके दावों के समर्थन मे

दस्तावेजी प्रमाण के साथ निम्नसिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों के माध्यम से प्रस्तृत किया जाना है । फॉर्म बी– ऑपरेशनल क्रेंकिटर्स (कर्मचारियों और कर्मचारियों को छोडकर) के दावों के लिए, फॉर्म सी– वितीय ऋणदाताओं के दावों के लिए, फॉर्म सीए— उपरोक्त वर्ग में वित्तीय ऋणदाताओं के दावों के लिए, फॉर्म डी– अमिकों और कर्मचारियों के दावों के लिए, फॉर्म ई-श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के दावों के लिए, फॉर्म एफ-के

लिए वित्तीय ऋणदाताओं और परिचालन ऋणदाताओं के अलावा अन्य ऋणदाताओं के दावे । दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दं बनीय होगी। दिनांक: 09.11.2023 अंतरिम समाधान प्रोफ्रेशनल, आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-003/0341/2021-2022/13623

फोनः 0129-4284300. फैक्सः 0129-4061541 वेबसाइटः www.talbrosaxles.com ईमेलः cs@talbrosaxles.com (लाख रूपयों में पिछले समाप्त वर्ष के संगत 3 महीने की अवधि 30.09.2022

11,803.34

1,042.79

1,042.79

775.24

775.24

507.65

15.27

15.27

हस्ता / -

(अंक्श जिंदल) कार्यकारी निदेशक

डीआईएन: 03634690

11435.45

(31 मार्च, 2023 तक)

# "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

24, अशोका चैम्बर्स, 5-बी, राजिन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060 सीआईएन: L65910DL1992PLC049566, वेबसाइट: www.smccredits.com 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनेकेक्षित अंकेक्षित 355.23 85.17 99.23 440.4 183.16 545.41 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष् एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) 30.55 313.95 65.88 278.24 283.4 50.25 कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद ) 283.4 30.55 313.95 65.88 1180.66 50.25 कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद ) 206.96 26.99 27.19 233.95 40.57 1022.05 अवधि हेतु कुल व्यापक आय 0.00 41184.67 0 40281.44 45617.53 प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर) 2505.55 2505.55 2505.55 1002.22 2505.55 1002.22 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) 94668.42 आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) ( असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रति का) मल रु. में प्रति शेयर 0.83 0.11 0.50 0.93 0.66 7.36 तरल रु. मे प्रति शेयर 0.83 0.50 0.93 0.66 7.36 0.11 1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज दाखिल की गई समाप्त तिमाही एवं छमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। उक्त तिमाही एवं छमाही परिणामों का संपूर्ण प्रारू स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं। 2) उक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 8 नवम्बर. 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये। एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड के लिख राजेश गोडनक स्थानः नई दिल्ली अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशव तिथि: 8 नवम्बर, 2023 DIN:0029822



# मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएन: L15311CH2011PLC033393 पंजीकृत कार्यासयः प्लॉट नंबर 807, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, चंडीगढ़ 160102 कार्यः ग्राम सोल्खियां, हवेली रिजार्ट्स के समीप, जनपद रूपनगर, 140108 कोनः +91 1881 240401; वेबसाइटः www.megastarfoods.com; ई-मेलः cs@megastarfoods.com

	विवरण		समाप्त विमाई	t (	समाप्त	समाप्त वर्ष	
那. ····································		30.09.2023 (अनंकेक्षित)	30.08.2023 (अनंकेक्षित)	30.09.2022 (अनंकेक्षित)	30.09.2023 (अनंकेंक्षित)	30.09.2022 (अनंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेंसित)
1	प्ररिचालनों से कुल आय	6,997.00	7,155.36	6,503.89	14,152,36	12,323.55	30,440.19
2	कर से पहले सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाम	272.69	274.28	215.92	546.97	407.22	1362.56
3	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (पीएटी)	202.94	208.14	145.12	411.08	287.40	1008.20
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद अवधि के लिए लाभ और कर के बाद अन्य व्यापक आय शामिल)	206.36	200.53	149.76	406.89	297.91	1018.07
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर अंकित मूल्य रू 10/- प्रति)	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37
6	अन्य इविवटी	4015.13	3808.76	2884.37	4015.13	2884.37	3608.23
7	प्रति इक्विटी शेयर आय (शेयर अंकित मूल्य रू 10/- प्रति)	10	10	10	10	10	10
	मूलभूत	2.03	2.08	1.45	4.11	2.87	10.08
	तरलीकृत	2.03	2.08	1.45	4.11	2.87	10.08

(क. लाखों में) अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्याएँ समाप्त विमाही समाप्त छमाही समाप्त वर्ष विवरण 30.09.2023 30.09.2022 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 31.03.2023 (अनंकेक्षित) (अनंकेसित) (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अनंके सित) (अंकेशित) प्ररिचालनों से कुल आय 6,317,45 5,767.86 6,498.88 12,085,32 12,315.74 26,799.00 कर पूर्व लाग 271.39 258.99 211.32 530.38 400.58 1296.69 कर के बाद लाभ 201.96 196.66 143.94 398.62 284.16 961.71

# टिप्पणीः

उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सवेंजों के साथ दर्ज त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सवेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। यह कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.megastarloods.com पर निवेशक शीर्षक के अंतर्गत भी उपलब्ध है। नेगास्टार फूड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल हेतु तथा उसकी ओर से

स्थानः चंडीगद दिनांकः 08 नवम्बर, 2023

विकास गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN: 05122585



Reg Office: Office no. 710, Naurang House, Kasturba Gandhi (KG) Road, Connaught Place, New-Delhi-110001 CIN: L74110DL2011PLC221111 Tel: 079-26566588 www.gvpinfotech.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER 30TH SEPTEMBER, 2023. (Rs. In Lakhs) Quarter Quarter Quarter Half Year Half Year Year ended 30 ended 30 ended 30 ended ended 30 ended **Particulars** 30 June September September September September 31 March 2023 2023 2022 2022 2023 (Un-Audited) (Un-Audited) Un-Audited) (Un-Audited) (Un-Audited) (Audited) 1,335.43 477.08 453.83 1,812.51 454.70 2,147.47 Total income from operations Total Expenses 464.45 1,309.23 278.73 1,773.69 310.68 1,695.00 12.63 26.20 175.10 38.82 144.02 452.47 Net Profit for the period (before tax and exceptional items) Net Profit for the period before tax (after exceptional items) 12.63 26.20 175.10 38.82 144.02 452.47 Net Profit for the period after tax (after exceptional items) 26,20 175.10 12.63 38.82 144.02 449.39 12.63 26.20 175.10 Total Comprehensive Income for the period 38.82 144.02 449.39 12.63 Profit/ Loss for the period after comprehensive income 26.20 175.10 38.82 144.02 449.39 Equity Share Capital 3,257.24 3,257.23 3,257.24 3,257.24 3,257.24 3,257.23 Earning Per Share (of Rs. 2 each) (after extraordinary items) Basic : 0.01 0.02 0.54 0.02 0.44 0.28 Diluted: 0.01 0.02 0.54 0.02 0.44 0.28

1) The above results were reviewed by the audit Committee and were approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on November

During the Quarter W/off of creditors amounting to Rs 20.22 Lakhs.

Previous Year's figures have been regrouped, reclassified wherever considered necessary. Date: 08.11.2023

Place: New Delhi

For, GVP Infotech Limited **Dhaval Mistry (Director)** 

# PERFECTPAC LIMITED

Regd. Office: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi - 110019 Phone No.: 011-26441015-18, Website: www.perfectpac.com Email: complianceofficer@perfectpac.com, CIN No.: L72100DL1972PLC005971

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023 (Rs. In lakhs except EPS)										
		Quarter Ended		Half Yea	Year Ended					
PARTICULARS	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023				
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
Total Revenue from operations	2,532.98	2,397.92	2,455.61	4,930.90	4,984.08	9,992.99				
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	144.61	160.28	101.35	304.89	141.76	365.76				
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	144.61	160.28	101.35	304.89	141.76	365.76				
Net Profit / (Loss) for the period after tax and Exceptional items	114.59	119.31	62.16	233.90	98.95	283.20				
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	114.59	119.31	62.16	233.90	98.95	287.90				
Equity Share Capital	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26				
Earnings Per Share of Rs. 2/- each 1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)	1.72 1.72	1.79 1.79	0.93 0.93	3.51 3.51	1.49 1.49	4.25 4.25				

NOTES:

1. The above unaudited financial results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at its Meeting held on November 08, 2023.

2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 along with review report of the Statutory Auditors is available under the investor section of our website at www.perfectpac.com and on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com. For Perfectpac Limited

Sanjay Rajgarhia **Managing Director** 

Chandigarh

Place: New Delhi Date: 08.11.2023

के लिए और बोर्ड की ओर से